

Question Booklet No. 102808

उत्तर-शीट का क्रमांक

Sl. No. of Answer-Sheet

अनुक्रमांक

Roll No.

घोषणा : मैंने नीचे दिये गये निर्देश अच्छी तरह पढ़कर समझ लिए हैं।

Declaration : I have read and understood the instructions given below.

वीक्षक के हस्ताक्षर

(Signature of Invigilator).....

वीक्षक के नाम

(Name of Invigilator)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(Signature of Candidate).....

पुर्णांक - 150

अभ्यर्थी का नाम

(Name of Candidate)

समय - 3 घंटे

प्रश्न-पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या

Number of Pages in this Question Booklet

48

प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या

Number of Questions in this Question Booklet

150

INSTRUCTION TO CANDIDATES

1. Immediately after getting the booklet read instructions carefully, mentioned on the front and back page of the Question Booklet and do not open the seal given on the Question Booklet, unless asked by the invigilator.
2. Write your Roll No., Answer-Sheet No., in the specified places given above and put your signature.
3. Make all entries in the OMR Answer-Sheet as per the given instructions otherwise Answer-Sheet will not be evaluated.
4. After opening the seal, ensure that the Question Booklet contains total no. of pages as mentioned above and printing of all the 150 questions is proper. If any discrepancy is found, inform the invigilator within 15 minutes and get the correct booklet.
5. While answering the question from the Question Booklet, for each question choose the correct/most appropriate option out of four options given, as answer and darken the circle provided against that option in the OMR Answer-Sheet, bearing the same serial number of the question. Darken the circle only with **Black or Blue ball point pen**.
6. Darken the circle of correct answer properly otherwise answers will not be evaluated. The candidate will be fully responsible for it.
7. There are 150 objective type questions in this Question Booklet. 1 mark is allotted for each correct answer and 1/4 mark will be deducted for each wrong Answer.
8. Do not write anything anywhere in the Question Booklet and the Answer-Sheet except making entries in the specified places otherwise OMR sheet will not be evaluated.
9. After completion of the examination, only OMR Answer-Sheet and cover page of Question Booklet is to be handed over to the invigilator. Carbon copy of the Answer-Sheet and Question Booklet may be taken away by the examinee.
10. This Question Booklet consists of Parts namely :

(1) Knowledge Relating Account	-	1-75
(2) Computer Related Knowledge	-	76-85
(3) Hindi Language	-	86-95
(4) English Language	-	96-105
(5) Mathematics	-	106-115
(6) General Knowledge	-	116-150
11. In case of any ambiguity in Hindi version the English version shall be considered authentic.

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. प्रश्न-पुस्तिका मिलते ही मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। प्रश्न-पुस्तिका में लगी सील को वीक्षक के कहने से पूर्व न खोलें।
2. ऊपर दिए हुए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर-पुस्तिका का क्रमांक लिखें तथा अपने हस्ताक्षर करें।
3. ओ.एम.आर. उत्तर-शीट में समस्त प्रविष्टियां दिये गये निर्देशानुसार करें अन्यथा उत्तर-शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
4. सील खोलने के बाद सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका में कुल पृष्ठ ऊपर लिखे अनुसार दिए हुए हैं तथा उसमें सभी 150 प्रश्नों का मुद्रण सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अंदर वीक्षक को सूचित कर सही प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त करें।
5. प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्न के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही/सबसे उपयुक्त केवल एक ही विकल्प का चयन कर उत्तर-शीट में सही विकल्प वाले गोले को जो उस प्रश्न के सरल क्रमांक से सम्बंधित हो काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से भरें।
6. सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह से भरें, अन्यथा उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी।
7. प्रश्न-पुस्तिका में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आबंटित किया गया है तथा गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काटे जायेंगे।
8. प्रश्न-पुस्तिका तथा उत्तर-शीट में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त कहीं भी कुछ न लिखें। अन्यथा OMR शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
9. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त केवल ओ.एम.आर. उत्तर-शीट एवं प्रश्न-पुस्तिका की कव्हर पेज वीक्षक को सौंपनी है। उत्तर-शीट की कार्बन कॉपी तथा प्रश्न-पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।
10. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग होंगे :

(1) लेखा ज्ञान संबंधी	- 1-75
(2) कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी	- 76-85
(3) हिन्दी भाषा	- 86-95
(4) अंग्रेजी भाषा	- 96-105
(5) गणित	- 106-115
(6) सामान्य ज्ञान	- 116-150
11. यदि हिन्दी भाषा में कोई सन्देह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

0812/MD-BDD/RCE-MA

Set - A

SEAL

f. त

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

(1) KNOWLEDGE RELATING ACCOUNT

(1) लेखा ज्ञान संबंधी

- | | |
|---|--|
| 1. Trial Balance discloses :
(A) Errors of Omission
(B) Errors of Entries
(C) Errors of Principles
(D) Errors of Balances | 1. तलपट प्रकट करता है :
(A) छूट जाने की अशुद्धियाँ
(B) प्रविष्टि सम्बन्धी अशुद्धियाँ
(C) सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ
(D) बाकी (शेषों) की अशुद्धियाँ |
| 2. A Trial Balance is a proof of :
(A) Arithmetical accuracy of account
(B) Honesty of accountant
(C) Accuracy of books
(D) Honesty of book keeper | 2. तलपट प्रमाण है :
(A) खातों की अंकगणितीय शुद्धता का
(B) लेखापाल की ईमानदारी का
(C) पुस्तकों की शुद्धता का
(D) पुस्तपालक की ईमानदारी का |
| 3. Which of the following errors is not disclosed by Trial Balance ?
(A) Compensating Errors
(B) Errors of Principles
(C) Errors of Omission
(D) All of these | 3. निम्न में से कौन सी अशुद्धियाँ तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है ?
(A) क्षतिपूरक अशुद्धियाँ
(B) सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ
(C) भूल सम्बन्धी अशुद्धियाँ
(D) इनमें सभी |
| 4. When a entry is made in Journal :
(A) Assets are listed first.
(B) Accounts to be debited listed first.
(C) Accounts to be credited listed first.
(D) Accounts may be listed in any order. | 4. जब जर्नल में प्रविष्टि की जाती है :
(A) पहले परिसम्पत्तियों का सूचियन किया जाता है।
(B) जिस खाते को नामे करना हो उसको पहले लिखा जाता है।
(C) जिस खाते को जमा करना हो उसको पहले लिखा जाता है।
(D) किसी भी खाते को पहले लिखा जाता है। |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

5. Due date for bill written on 1st July for 3 months will be :

- (A) 3rd September
- (B) 4th October
- (C) 5th November
- (D) 1st October

5. एक जुलाई को तीन माह के लिए लिखे गए बिल की भुगतान तिथी होगी :

- (A) 3 सितम्बर
- (B) 4 अक्टूबर
- (C) 5 नवम्बर
- (D) 1 अक्टूबर

6. Voluntary liquidation of a company related to :

- (A) Director's voluntary liquidation
- (B) Members voluntary liquidation
- (C) Liquidation by members and creditors
- (D) Liquidation by director and debtors

6. कंपनी का स्वेच्छा से समापन से आशय होता है :

- (A) संचालकों की स्वेच्छा से समापन
- (B) सदस्यों की स्वेच्छा से समापन
- (C) सदस्यों एवं लेनदारों की स्वेच्छा से समापन
- (D) संचालकों एवं देनदारों की स्वेच्छा से समापन

7. The maximum number of people in Joint Venture can be :

- (A) 10
- (B) 20
- (C) 50
- (D) unlimited

7. संयुक्त साहस में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या होती है :

- (A) 10
- (B) 20
- (C) 50
- (D) असीमित

8. According to going concern concept, a business entity is assumed to have :

- (A) a long life
- (B) a short life
- (C) a very short life
- (D) a definite life

8. चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व :

- (A) दीर्घकालीन जीवन होगा
- (B) अल्पकालीन जीवन होगा
- (C) अति अल्पकालीन जीवन होगा
- (D) निश्चित जीवन होगा

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

9. Cheques is :

- (A) Business format
- (B) Banking Document
- (C) Bill of Exchange
- (D) None of the above

9. धनादेश है :

- (A) एक व्यापारिक प्रपत्र
- (B) एक बैंकिंग प्रलेख
- (C) विनिमय साध्य विलेख
- (D) इसमें से कोई नहीं

10. Which of the following equation is related with dual aspect concept ?

- (A) Total Assets = Total liabilities
- (B) Total Assets = Capital + Outsiders liability
- (C) Capital = Total Assets – Outsiders liability
- (D) All of these

10. कौन सा समीकरण द्वि-पक्षीय अवधारणा से संबंधित है ?

- (A) कुल संपत्तियाँ = कुल दायित्व
- (B) कुल संपत्तियाँ = पूँजी + बाह्य देयताएँ
- (C) पूँजी = कुल संपत्तियाँ – बाह्य देयताएँ
- (D) इनमें से सभी

11. Single Entry system is :

- (A) Complete
- (B) Incomplete and Unscientific
- (C) Scientific
- (D) Arrange

11. इकहरा लेखा प्रणाली है :

- (A) पूर्ण
- (B) अपूर्ण व अवैज्ञानिक
- (C) वैज्ञानिक
- (D) व्यवस्थित

12. Pass-book debit balance show :

- (A) Amount Deposit in Bank
- (B) Bank Overdraft
- (C) Bank Interest
- (D) Bank expenses

12. पास-बुक का नाम शेष दर्शाता है :

- (A) बैंक में जमा राशि
- (B) बैंक अधिविकर्ष
- (C) बैंक ब्याज
- (D) बैंक व्यय

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

- | | |
|--|--|
| <p>13. Expenditure for getting license for running cinema hall is :</p> <p>(A) Revenue</p> <p>(B) Capital</p> <p>(C) Investment</p> <p>(D) Adjustment</p> | <p>13. सिनेमा हॉल चलाने के लिए लाइसेन्स का व्यय है :</p> <p>(A) आयगत</p> <p>(B) पूँजीगत</p> <p>(C) विनियोग</p> <p>(D) समायोजन</p> |
| <p>14. Which of the following is a Personal Account ?</p> <p>(A) Bank Account</p> <p>(B) Rent Account</p> <p>(C) Purchase Account</p> <p>(D) All of these</p> | <p>14. निम्न में कौन सा लेखा व्यक्तिगत लेखा है ?</p> <p>(A) बैंक लेखा</p> <p>(B) किराया लेखा</p> <p>(C) क्रय लेखा</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>15. Capital Account is :</p> <p>(A) Personal Account</p> <p>(B) Impersonal Account</p> <p>(C) Real Account</p> <p>(D) Nominal Account</p> | <p>15. पूँजी खाता है :</p> <p>(A) व्यक्तिगत खाता</p> <p>(B) अव्यक्तिगत खाता</p> <p>(C) वास्तविक खाता</p> <p>(D) नाम मात्र खाता</p> |
| <p>16. Pass Book is :</p> <p>(A) Copy of Book transactions in the Cash Book</p> <p>(B) Copy of customer's account prepared by the bank</p> <p>(C) Copy of business receipts and payment</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>16. पास बुक है :</p> <p>(A) रोकड़ बही में बैंक सम्बन्धी व्यवहारों की नकल</p> <p>(B) बैंक द्वारा ग्राहक के बनाये गये खाते की नकल</p> <p>(C) व्यवसाय की प्राप्ति एवं भुगतान की नकल</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

- | | |
|---|--|
| <p>17. Which is not a Subsidiary Book ?</p> <p>(A) Purchases Book</p> <p>(B) Sales Book</p> <p>(C) Bills Receivable Book</p> <p>(D) Assets Book</p> | <p>17. सहायक पुस्तक नहीं है :</p> <p>(A) क्रय पुस्त</p> <p>(B) विक्रय पुस्त</p> <p>(C) प्राप्य विपत्र पुस्त</p> <p>(D) संपत्ति पुस्त</p> |
| <p>18. In which Assumption Business is totally separate and free from the businessman ?</p> <p>(A) Accounting Owned Assumption</p> <p>(B) Accounting Entity Assumption</p> <p>(C) Going Concern Assumption</p> <p>(D) Accounting Period Assumption</p> | <p>18. व्यापार अपने स्वामी से पूर्ण रूप से पृथक है। यह किस मान्यता पर आधारित है ?</p> <p>(A) लेखांकन स्वामित्व</p> <p>(B) लेखांकन अस्तित्व</p> <p>(C) चालू व्यवसाय की मान्यता</p> <p>(D) लेखांकन अवधि</p> |
| <p>19. Shobhit and Agam were partners sharing Profit/L in the ratio 3 : 2. Nikhar was admitted for 1/5 of share in P/L. The New Profit/L Sharing ratio will be :</p> <p>(A) 12 : 8 : 5</p> <p>(B) 8 : 12 : 5</p> <p>(C) 2 : 2 : 1</p> <p>(D) 5 : 8 : 12</p> | <p>19. शोभित और अगम साझेदार थे जो लाभ-हानि का विभाजन 3 : 2 के अनुपात में करते थे। निखार को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया। लाभ-हानि का नया अनुपात होगा :</p> <p>(A) 12 : 8 : 5</p> <p>(B) 8 : 12 : 5</p> <p>(C) 2 : 2 : 1</p> <p>(D) 5 : 8 : 12</p> |
| <p>20. Record is maintained in purchase book :</p> <p>(A) After deducting trade discount</p> <p>(B) After adding trade discount</p> <p>(C) After adding cash discount</p> <p>(D) After deducting cash discount</p> | <p>20. क्रय बही में लेखा किया जाता है :</p> <p>(A) व्यापारिक छूट घटाकर</p> <p>(B) व्यापारिक छूट जोड़कर</p> <p>(C) नकद छूट जोड़कर</p> <p>(D) नकद छूट घटाकर</p> |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

- | | |
|--|--|
| <p>21. In case of personal account, the rule of Journalising are :</p> <p>(A) Debit the receiver and credit the giver</p> <p>(B) Debit what comes in and credit what goes out</p> <p>(C) Debit the expenses and losses and credit the income and gains</p> <p>(D) Debit increase and credit decrease</p> | <p>21. व्यक्तिगत खातों के संबंध में जर्नल में प्रविष्टि करने का नियम है :</p> <p>(A) प्राप्त करने वाले के खाते को डेबिट तथा देनेवाले को क्रेडिट</p> <p>(B) आने वाले वस्तु के खाते को डेबिट तथा देने वाली वस्तु के खाते को क्रेडिट किया जाता है</p> <p>(C) हानि एवं खर्चों को डेबिट तथा आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है</p> <p>(D) वृद्धि को डेबिट तथा कमी को क्रेडिट</p> |
| <p>22. Will be deducted from the Capital :</p> <p>(A) Gross Profit</p> <p>(B) Net Profit</p> <p>(C) Gross Loss</p> <p>(D) Net Loss</p> | <p>22. पूँजी से घटाया जायेगा :</p> <p>(A) सकल लाभ</p> <p>(B) शुद्ध लाभ</p> <p>(C) सकल हानि</p> <p>(D) शुद्ध हानि</p> |
| <p>23. Preliminary Expenses are shown in the balance sheet under the head :</p> <p>(A) Reserve and Surplus</p> <p>(B) Investment</p> <p>(C) Loan and Advances</p> <p>(D) Miscellaneous Expenditure</p> | <p>23. प्रारंभिक व्यय चिट्ठा के निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है :</p> <p>(A) संचय एवं अतिरेक</p> <p>(B) विनियोग</p> <p>(C) ऋण एवं अग्रिम</p> <p>(D) विविध व्यय</p> |
| <p>24. Capital Profit is that Profit :</p> <p>(A) Which is received from P. and L. Account.</p> <p>(B) Which is received by sale of Fixed Assets.</p> <p>(C) Which is received by sale of goods.</p> <p>(D) Which is received from any department of the business.</p> | <p>24. पूँजीगत लाभ वह लाभ है :</p> <p>(A) जो लाभ हानि लेखे से प्राप्त हो।</p> <p>(B) जो किसी स्थायी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त हो।</p> <p>(C) जो माल के विक्रय से प्राप्त हो।</p> <p>(D) जो व्यापार के किसी विभाग से प्राप्त हो।</p> |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

25. Accounting is the language of :

- (A) Business
- (B) Books of Accounts
- (C) Accountants
- (D) None of these

25. लेखांकन भाषा है :

- (A) व्यवसाय की
- (B) लेखा पुस्तकों की
- (C) लेखाशास्त्री की
- (D) इनमें से किसी की नहीं

26. Wages of new machinery will be shown in :

- (A) Wages Account
- (B) Machinery Account
- (C) Cash Account
- (D) Expenses Account

26. नई मशीनरी की मजदूरी दर्शायी जाएगी :

- (A) मजदूरी खाता में
- (B) मशीनरी खाता में
- (C) रोकड़ खाता में
- (D) व्यय खाता में

27. Single Entry system is fit for :

- (A) Company
- (B) For Co-operative Society
- (C) For Government Institution
- (D) None of the above

27. इकहरा प्रणाली उपयुक्त है :

- (A) कम्पनी के लिए
- (B) सहकारी संस्थाओं के लिए
- (C) सरकारी संस्थाओं के लिए
- (D) इनमें से कोई नहीं

28. Which one is a Capital Expenditure ?

- (A) Preliminary Expenses
- (B) Wages and Salary
- (C) Insurance
- (D) None of above

28. निम्नलिखित में पूँजीगत व्यय है :

- (A) प्रारंभिक व्यय
- (B) वेतन एवं मजदूरी
- (C) बीमा
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

29. The balance of cash column is :

- (A) always debit
- (B) always credit
- (C) debit and credit
- (D) none of these

29. रोकड़ स्तंभ का शेष होता है :

- (A) हमेशा डेबिट
- (B) हमेशा क्रेडिट
- (C) डेबिट और क्रेडिट
- (D) इनमें से कोई नहीं

30. The work which is included in Accounting are :

- (A) To record the business transactions into the Journal
- (B) To Post the business transactions into the Ledger
- (C) To Balance the accounts opened in the Ledger
- (D) To prepare the Profit and Loss account and a Balance Sheet

30. लेखांकन के अन्तर्गत आने वाला कार्य है :

- (A) व्यापारिक व्यवहारों को जर्नल में लिखना
- (B) व्यापारिक व्यवहारों की खाता बही में खतौनी करना
- (C) खाता बही में खोले गए खातों के शेष निकालना
- (D) लाभ हानि खाता एवं स्थिति-विवरण तैयार करना

31. If a Trial Balance does not agree, then accountant opens :

- (A) Drawing Account
- (B) Suspense Account
- (C) Capital Account
- (D) Nominal Account

31. यदि तलपट का मिलान नहीं होता, तब लेखापाल खोलता है :

- (A) आहरण खाता
- (B) भूलचूक खाता
- (C) पूँजी खाता
- (D) नाम मात्र का खाता

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

32. The cash book records :

- (A) All cash receipts
- (B) All cash payments
- (C) All cash receipts and payments
- (D) None of these

32. रोकड़ पुस्तक में लिखा जाता है :

- (A) सभी नकद प्राप्तियाँ
- (B) सभी नकद भुगतान
- (C) सभी नकद प्राप्तियाँ एवं भुगतान
- (D) इनमें से कोई नहीं

33. According to cost concept that the assets are always valued at :

- (A) Market Price
- (B) Purchase Price
- (C) Current Price
- (D) None of above

33. लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियाँ हमेशा मूल्यांकित की जाती है :

- (A) बाजार मूल्य
- (B) क्रय मूल्य
- (C) वर्तमान मूल्य
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

34. The 'Rent paid to Ram' will **not** be opened :

- (A) Ram's Account
- (B) Cash Account
- (C) Rent Account
- (D) None of these

34. 'राम को किराया चुकाया' में नहीं खोला जाएगा :

- (A) राम का लेखा
- (B) रोक लेखा
- (C) किराया लेखा
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

35. The Receipts and Payments account records receipts and payments of :

- (A) Capital Nature only
- (B) Revenue Nature only
- (C) Both Capital and Revenue Nature
- (D) None of these

35. प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्राप्तियों एवं भुगतानों को अभिलेखित करता है :

- (A) सिर्फ पूंजी प्रकृति वाले
- (B) सिर्फ आयगत प्रकृति वाले
- (C) पूंजी और आयगत दोनों प्रकृति वाले
- (D) इनमें से कोई नहीं

36. Purchase of Assets for cash :

- (A) Decreases total liabilities
- (B) Total assets remains unchanged
- (C) Increases total liabilities
- (D) Decreases total assets

36. संपत्ति का नकद में क्रय :

- (A) कुल दायित्व घटते हैं
- (B) कुल संपत्तियाँ अपरिवर्तित रहती हैं
- (C) कुल दायित्व बढ़ते हैं
- (D) कुल सम्पत्तियाँ घटती हैं

37. Accounting Standard Board are formed in India in :

- (A) Year 1972
- (B) Year 1977
- (C) Year 1956
- (D) Year 1932

37. भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब किया गया ?

- (A) सन् 1972
- (B) सन् 1977
- (C) सन् 1956
- (D) सन् 1932

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिये जगह

38. According to Full Disclosure Principle :

- (A) All accounts should be maintained honestly
- (B) All important information should be included in accounts
- (C) All account should be prepared immediately
- (D) Accounts should be prepared carefully

39. Interest on Capital is :

- (A) Gains for the business
- (B) Loss for the business
- (C) Expenses for the business
- (D) All of these

40. Interest on Drawing is recorded :

- (A) Debit side of P/L Adjustment Account
- (B) Credit side of P/L Adjustment Account
- (C) Debit side of P/L Account
- (D) Liabilities side of Balance Sheet

38. पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत के अनुसार :

- (A) सभी लेखे ईमानदारी से तैयार किये जाने चाहिए
- (B) खाते में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ सम्मिलित होनी चाहिए
- (C) सभी खाते शीघ्र तैयार किए जाने चाहिए
- (D) खाते सावधानीपूर्वक बनाए जाने चाहिए

39. पूँजी पर ब्याज होता है :

- (A) व्यवसाय की आय
- (B) व्यवसाय की हानि
- (C) व्यवसाय के व्यय
- (D) ये सभी

40. आहरण पर ब्याज लिखा जाता है :

- (A) लाभ-हानि विनियोजन खाता के डेबिट पक्ष में
- (B) लाभ-हानि विनियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में
- (C) लाभ-हानि खाता के डेबिट पक्ष में
- (D) चिट्ठा के दायित्व पक्ष में

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

41. According to _____ the book which contains a classified and permanent record of all the transaction of a business is called a ledger.

- (A) J.R. Batliboi
- (B) L.C. Croper
- (C) R.N. Anthoney
- (D) Smith and Ashburne

42. Balance of Personal Accounts will be shown :

- (A) In Trading Account
- (B) In Profit and Loss Account
- (C) In Trading and Profit and Loss A/c
- (D) In Balance Sheet

43. With the object to promote sales the customer are allowed :

- (A) Cash discount
- (B) Cash and Trade discount
- (C) Trade discount
- (D) Loan

41. _____ के अनुसार "वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदों को एक वर्गीकृत तथा स्थायी रूप में लिखा जाता है, खाता बही कहलाता है"।

- (A) जे.आर. बाटलीबाय
- (B) एल.सी. क्रॉपर
- (C) आर.एन. एन्थोनी
- (D) स्मिथ एवं एशबर्न

42. व्यक्तिगत खातों के आधिक्य (शेष) का उल्लेख होगा :

- (A) व्यापार खाता में
- (B) लाभ-हानि खाता में
- (C) व्यापार एवं लाभ-हानि खाता में
- (D) चिह्न में

43. व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को दिया जाता है :

- (A) नगद बट्टा
- (B) नगद एवं व्यापारिक बट्टा
- (C) व्यापारिक बट्टा
- (D) ऋण

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

44. Expenses on repairs of the old office furniture is :

- (A) Capital Expenditure
- (B) Revenue Expenditure
- (C) Deferred Revenue Expenditure
- (D) Capital and Revenue both

44. कार्यालय के पुराने फर्नीचर का मरम्मत व्यय है :

- (A) पूंजीगत व्यय
- (B) आगम व्यय
- (C) आस्थगित आगम व्यय
- (D) पूंजीगत एवं आयगत दोनों

45. Meaning of holding company is :

- (A) which is making formula.
- (B) which is holding any subsidiary company.
- (C) which is issued share capital.
- (D) which is protect other company.

45. सूत्रधारी कम्पनी का आशय है :

- (A) जो सूत्र बनाती है।
- (B) जिसकी कोई सहायक कम्पनी है।
- (C) जो अंश पूंजी निर्गमित करती है।
- (D) जो अन्य कम्पनी की रक्षा करती है।

46. Which column's balance are not calculated in triple columnar cash book ?

- (A) Cash column
- (B) Bank column
- (C) Discount column
- (D) None of these

46. तीन खानों वाली रोकड़ बही में किस स्तंभ का शेष नहीं निकाला जाता है ?

- (A) रोकड़ स्तंभ
- (B) बैंक स्तंभ
- (C) बट्टा स्तंभ
- (D) इनमें से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

47. Bank reconciliation statement is :

(A) Account

(B) Subsidiary Books

(C) List

(D) Statement

47. बैंक समाधान विवरण है :

(A) खाता

(B) सहायक पुस्तक

(C) सूची

(D) विवरण

48. Which is not a current Asset ?

(A) Debtors

(B) Bills Receivable

(C) Stock

(D) Goodwill

48. निम्न में चालू संपत्ति नहीं है :

(A) देनदार

(B) प्राप्य विपत्र

(C) स्कंध

(D) ख्याति

49. The sub-division of goods account is :

(A) Machinery Account

(B) Capital Account

(C) Purchase Account

(D) Cash Account

49. वस्तु या माल खाता का ही उप-विभाग है :

(A) मशीन खाता

(B) पूँजी खाता

(C) क्रय खाता

(D) रोकड़ खाता

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

50. Which type of transactions are not recorded in cash book ?
- (A) Cash transaction
(B) Credit transaction
(C) Cash and credit both
(D) None of these
51. In which method of Joint Venture Accounting Memorandum Joint Venture Account are maintained ?
- (A) To maintain all accounts of Joint Venture in Head Office.
(B) To maintain all accounts of Joint Venture in the books of one co-venture only.
(C) To maintain other Co-ventures accounts and Joint Venture accounts in the books of Co-venturer.
(D) To maintain Personal account of the other Co-venturer in the books of all Co-venturers.
52. Which of the following statement is true ?
- (A) Only one venture bears the risk.
(B) Only one venture can sell the goods.
(C) Only one venture can purchase the goods act applies.
(D) In Joint Venture provisions of partnership.
50. रोकड़ बही में कौन से लेन-देन नहीं लिखे जाते हैं ?
- (A) नकद लेन-देन
(B) उधार लेन-देन
(C) नकद व उधार दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
51. संयुक्त उपक्रम खाते में मेमोरेण्डम संयुक्त उपक्रम खाता किस विधि में रखा जाता है ?
- (A) संयुक्त उपक्रम के सभी लेखों का प्रधान कार्यालय में रखा जाना।
(B) संयुक्त उपक्रम के सभी लेखों का किसी एक सह-साहसी की पुस्तकों में रखा जाना।
(C) प्रत्येक सह-साहसी द्वारा अपनी पुस्तकों में अन्य सह-साहसियों के लेखे तथा संयुक्त उपक्रम लेखा रखा जाना।
(D) समस्त सह-साहसियों की पुस्तकों में केवल अन्य सह-साहसियों का लेखा रखा जाना।
52. निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?
- (A) केवल एक ही उपक्रमी जोखिम वहन करता है।
(B) केवल एक उपक्रमी माल बेच सकता है।
(C) एक उपक्रमी ही माल का क्रय कर सकता है।
(D) संयुक्त साहस में साझेदारी अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं।

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

53. Goods lost by fire ₹ 1,500, claim accepted by Insurance Co. is ₹ 500. Which are recorded in trading account ?

- (A) ₹ 1,500
- (B) ₹ 500
- (C) ₹ 1,000
- (D) ₹ 2,000

53. ₹ 1,500 का माल अग्नि से नष्ट हुआ, बीमा कम्पनी ने ₹ 500 के दावे को स्वीकृति दी। व्यापार खाते में क्या प्रकट किया जावेगा ?

- (A) ₹ 1,500
- (B) ₹ 500
- (C) ₹ 1,000
- (D) ₹ 2,000

54. Maximum number of partners in a Manufacturing Partnership Firm :

- (A) 2
- (B) 10
- (C) No limit
- (D) 20

54. एक निर्माणी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ?

- (A) 2
- (B) 10
- (C) कोई सीमा नहीं
- (D) 20

55. Accounting system are adopted by Non-trading organisation and professional individual are :

- (A) Single Entry System
- (B) Double Entry System
- (C) Mixed Entry System
- (D) Cash System

55. गैर-व्यापारिक संस्थाओं व पेशेवर व्यक्ति लेखाकर्म की प्रणाली अपनाते हैं :

- (A) इकहरा लेखा प्रणाली
- (B) दोहरा लेखा प्रणाली
- (C) मिश्रित लेखा प्रणाली
- (D) रोकड़ प्रणाली

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

56. Balances of Personal Accounts will be shown :

- (A) in Trading Account
- (B) in Profit and Loss Account
- (C) in Trading and Profit and Loss Account
- (D) in Balance Sheet

56. व्यक्तिगत खातों के आधिक्य का उल्लेख होगा :

- (A) व्यापार खाता में
- (B) लाभ-हानि खाता में
- (C) व्यापार एवं लाभ-हानि खाता में
- (D) चिट्ठा में

57. In the absence of Partnership deed interest on capital is given :

- (A) 6% per annum
- (B) 9% per annum
- (C) by any rate
- (D) by no rate

57. साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है :

- (A) 6% वार्षिक
- (B) 9% वार्षिक
- (C) किसी भी दर से
- (D) किसी भी दर से नहीं

58. Which account of the following will be credited on giving of goods in donation ?

- (A) Sales Account
- (B) Purchase Account
- (C) Donation Account
- (D) Cash Account

58. माल दान में दिए जाने पर निम्न में से कौन सा लेखा समा. होगा ?

- (A) विक्रय लेखा
- (B) क्रय लेखा
- (C) दान लेखा
- (D) रोक लेखा

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

59. Meaning of Asset is :

- (A) Liabilities – Capital
- (B) Assets + Capital
- (C) Liabilities + Capital
- (D) Capital – Drawings

59. सम्पत्ति का आशय है :

- (A) दायित्व – पूँजी
- (B) सम्पत्ति + पूँजी
- (C) दायित्व + पूँजी
- (D) पूँजी – आहरण

60. Excess of liabilities over Assets is called :

- (A) Creditor
- (B) Profit
- (C) Capital
- (D) Goodwill

60. सम्पत्तियों पर दायित्वों का आधिक्य कहलाता है :

- (A) लेनदार
- (B) लाभ
- (C) पूँजी
- (D) ख्याति

61. Trial Balance is a :

- (A) Journal
- (B) Nominal Account
- (C) List of Balance
- (D) Personal Account

61. तलपट है :

- (A) पंजी
- (B) अभिहित खाते
- (C) शेष की सूची
- (D) व्यक्तिगत खाते

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

62. A large amount spent on special advertisement is :

- (A) Capital Expenditure
- (B) Revenue Expenditure
- (C) Revenue Loss
- (D) Deferred Revenue Expenditure

62. बड़ी मात्रा में किया गया विशेष विज्ञापन व्यय है :

- (A) पूँजीगत व्यय
- (B) आयगत व्यय
- (C) आयगत हानि
- (D) आस्थगित आयगत व्यय

63. A, B and C decided to dissolve their Partnership firm. They have ₹ 50,000 as surplus after making the payments of outside liabilities and partners loan and capital. They will distribute the surplus amount :

- (A) in their capital ratio
- (B) in their profit/L sharing ratio
- (C) equally
- (D) none of these

63. A, B और C अपनी साझेदारी फर्म के समापन पर निर्णय लेते हैं कि बाहरी दायित्वों, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋणों, तथा उनकी पूँजी का भुगतान करने के बाद उनके पास ₹ 50,000 शेष बचते हैं। वे शेष राशि का भुगतान करेंगे :

- (A) अपनी पूँजी के अनुपात में
- (B) लाभ/हानि के अनुपात में
- (C) बराबर-बराबर
- (D) इनमें से कोई नहीं

64. Object of preparing Trial balance is :

- (A) To know accuracy of accounts
- (B) To know the Financial Position of business
- (C) To know profit or loss
- (D) To know arithmetical accuracy of accounts

64. तलपट बनाने का उद्देश्य है :

- (A) खातों की शुद्धता ज्ञात करना
- (B) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना
- (C) लाभ हानि ज्ञात करना
- (D) खातों की अंकगणितीय शुद्धता ज्ञात करना

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

65. Bank reconciliation statement prepared by :

- (A) By Customer
- (B) By Bank
- (C) By Debtor
- (D) By Creditor

65. बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है :

- (A) ग्राहक द्वारा
- (B) बैंक द्वारा
- (C) देनदार द्वारा
- (D) लेनदार द्वारा

66. Account are maintained in single entry system :

- (A) Nominal and Real Accounts
- (B) Cash book and Personal Accounts
- (C) Nominal and Personal Accounts
- (D) All Accounts

66. एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत लेखे रखे जाते हैं :

- (A) नाममात्र एवं वास्तविक लेखे
- (B) रोक पुस्तक एवं व्यक्तिगत लेखे
- (C) नाममात्र एवं व्यक्तिगत लेखे
- (D) सभी प्रकार के लेखे

67. Which one of the following International Accounting Standard is for Financial Reporting of interest in Joint Venture ?

- (A) IAS - 29
- (B) IAS - 30
- (C) IAS - 31
- (D) IAS - 32

67. 'संयुक्त उपक्रम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन' के लिए अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक कौन सा है ?

- (A) IAS - 29
- (B) IAS - 30
- (C) IAS - 31
- (D) IAS - 32

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

68. Revenue is generally recognised when :
- (A) Production is completed
(B) Order for goods is received
(C) Goods are delivered
(D) Cash is received
69. A Customer's cheque returned dishonoured shall be recorded in cash book at :
- (A) Debit side of the bank column of the cash book
(B) Credit side of the bank column of the cash book
(C) Debit side of cash column of the cash book
(D) Credit side of the cash column of the cash book
70. Prepaid expenses appearing in the Trial Balance will figure in :
- (A) Trading Account
(B) Profit and Loss Account
(C) Trading Account and Profit and Loss A/c
(D) Balance Sheet
71. Profit and Loss Account shows :
- (A) Net Profit
(B) Net Loss
(C) Net Profit or Net Loss
(D) Net Profit and Net Loss
68. सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब :
- (A) उत्पादन पूर्ण होता है
(B) जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है
(C) जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है
(D) जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है
69. एक ग्राहक के अनादरित किए गए तथा बैंक द्वारा लौटाए गए चेक का लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा :
- (A) रोकड़ बही के बैंक खाने के डेबिट पक्ष में
(B) रोकड़ बही के बैंक खाने के क्रेडिट पक्ष में
(C) रोकड़ बही के रोकड़ खाने के डेबिट पक्ष में
(D) रोकड़ बही के रोकड़ खाने के क्रेडिट पक्ष में
70. तलपट में लिखा पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जाएगा :
- (A) व्यापार खाते में
(B) लाभ-हानि खाते में
(C) व्यापार खाते एवं लाभ-हानि खाते में
(D) चिट्ठा में
71. लाभ-हानि खाता दर्शाता है :
- (A) शुद्ध लाभ
(B) शुद्ध हानि
(C) शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि
(D) शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

- | | |
|---|--|
| <p>72. Goodwill is :</p> <p>(A) Floating Asset</p> <p>(B) Wasting Asset</p> <p>(C) Fictitious Asset</p> <p>(D) Intangible Asset</p> | <p>72. ख्याति है :</p> <p>(A) अस्थायी सम्पत्ति</p> <p>(B) नाशवान सम्पत्ति</p> <p>(C) बनावटी सम्पत्ति</p> <p>(D) अमूर्त सम्पत्ति</p> |
| <p>73. Meaning of Double Entry System of Book-keeping is :</p> <p>(A) Two entries in one book</p> <p>(B) Two entries in one account</p> <p>(C) Entry in both sides of one transaction</p> <p>(D) Entry in two personal accounts</p> | <p>73. पुस्तपालन की द्वि-प्रविष्टि प्रणाली का अर्थ है :</p> <p>(A) एक ही पुस्तक में दो प्रविष्टियाँ</p> <p>(B) एक ही खाते में दो प्रविष्टियाँ</p> <p>(C) एक ही व्यवहार के दो पहलू की प्रविष्टि</p> <p>(D) दो व्यक्तिगत खातों में प्रविष्टि</p> |
| <p>74. Which of the following accounts is nominal account ?</p> <p>(A) Interest Account</p> <p>(B) Outstanding Interest Account</p> <p>(C) Accrued Interest Account</p> <p>(D) Prepaid Interest Account</p> | <p>74. निम्नलिखित में से कौन-सा नाम मात्र खाता है ?</p> <p>(A) ब्याज खाता</p> <p>(B) अदत्त ब्याज खाता</p> <p>(C) उपार्जित ब्याज खाता</p> <p>(D) पूर्वदत्त ब्याज खाता</p> |
| <p>75. Premium received on the issue of shares is shown in :</p> <p>(A) Debit side of Profit and Loss Account</p> <p>(B) Credit side of Profit and Loss Account</p> <p>(C) Asset side of Balance Sheet</p> <p>(D) Liability side of Balance Sheet</p> | <p>75. अंशों के निर्गमन पर प्रव्याजी की राशि दर्शायी जाती है :</p> <p>(A) लाभ हानि खाते के विक. पक्ष में</p> <p>(B) लाभ हानि खाते के समा. पक्ष में</p> <p>(C) चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में</p> <p>(D) चिट्ठे के दायित्व पक्ष में</p> |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

(2) COMPUTER RELATED KNOWLEDGE

(2) कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी

76. Landscape is :

- (A) A font style
- (B) Paper size
- (C) Page layout
- (D) Page orientation

76. लैण्डस्केप है :

- (A) A font style
- (B) Paper size
- (C) Page layout
- (D) Page orientation

77. A collection of unprocessed items are :

- (A) Information
- (B) Data
- (C) Memory
- (D) Report

77. अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है :

- (A) Information
- (B) Data
- (C) Memory
- (D) Report

78. Programs that are automatically loaded and operated as a part of browser are known as :

- (A) Utilities
- (B) Plug-ins
- (C) Widgets
- (D) add-ons

78. ब्राउसर का भाग के रूप में जो Program, automatic load और operate होता है, उसे _____ कहते हैं।

- (A) Utilities
- (B) Plug-ins
- (C) Widgets
- (D) add-ons

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

79. Which of the following is program group ?

(A) Accessories

(B) Paint

(C) Word

(D) All of above

79. निम्न में कौन प्रोग्रामों का समूह है ?

(A) Accessories

(B) Paint

(C) Word

(D) उपरोक्त सभी

80. Images included in many softwares titles are called :

(A) Clip art

(B) Popups

(C) .jpg files

(D) .tiff files

80. बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले Image को _____ कहते हैं।

(A) Clip art

(B) Popups

(C) .jpg files

(D) .tiff files

81. Which key is used in combination with another key to perform a specific task ?

(A) Function

(B) Spacebar

(C) Arrow

(D) Control

81. किस key का इस्तेमाल दूसरे key के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है ?

(A) Function

(B) Spacebar

(C) Arrow

(D) Control

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

82. _____ are used in denial of service attacks, typically against targeted websites.

- (A) Worm
- (B) Zombie
- (C) Virus
- (D) Trojan Horse

83. The server on the Internet is also known as a :

- (A) Hub
- (B) Host
- (C) Gateway
- (D) Repeater

84. Which of the following is a medium of output ?

- (A) Scanner
- (B) Mouse
- (C) Printer
- (D) Keyboard

85. In which view background color will not be visible ?

- (A) Print Layout View
- (B) Web Layout View
- (C) Print Preview
- (D) Reading View

82. विशिष्ट रूप से नियत websites पर सेवा की मनाही (denial of service) के लिए _____ का इस्तेमाल होता है।

- (A) Worm
- (B) Zombie
- (C) Virus
- (D) Trojan Horse

83. इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है ?

- (A) Hub
- (B) Host
- (C) Gateway
- (D) Repeater

84. निम्न में से कौन आउटपुट का माध्यम है ?

- (A) Scanner
- (B) Mouse
- (C) Printer
- (D) Keyboard

85. किस view में background color नहीं दिखता है ?

- (A) Print Layout View
- (B) Web Layout View
- (C) Print Preview
- (D) Reading View

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

**(3) HINDI LANGUAGE /
हिन्दी भाषा**

86. 'उल्लास' का संधि विच्छेद है :

- (A) उत् + लास
- (B) उः + लास
- (C) उ + लास
- (D) उअ + लास

87. निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है :

- (A) आ
- (B) उ
- (C) ऐ
- (D) इ

88. मूल शब्द है :

- (A) यौगिक
- (B) रूढ़
- (C) योगरूढ़
- (D) उपर्युक्त सभी

89. 'आलपीन' किस भाषा का शब्द है ?

- (A) अंग्रेजी
- (B) अरबी
- (C) पुर्तगाली
- (D) चीनी

90. चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं ?

- (A) चार
- (B) आठ
- (C) बारह
- (D) सोलह

91. 'उसने नहाकर भोजन किया' इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ?

- (A) अभ्यासबोधक
- (B) नामबोधक
- (C) पूर्वकालिक
- (D) प्रेरणार्थक

92. अलंकार के मुख्यतः कितने वर्ग हैं ?

- (A) दो
- (B) एक
- (C) तीन
- (D) चार

93. 'कलेजा ठण्डा होना' मुहावरे का अर्थ है :

- (A) शांत होना
- (B) सन्तोष होना
- (C) सुखी होना
- (D) ठण्डक पहुँचना

94. प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किये जा सकते हैं ?

- (A) तीन
- (B) चार
- (C) पाँच
- (D) छः

95. तद्धित क्या है ?

- (A) प्रविशेषण
- (B) उपसर्ग
- (C) प्रत्यय
- (D) क्रिया

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

**(4) ENGLISH LANGUAGE /
अंग्रेजी भाषा**

96. The expression 'waste not, want not' is an example of :

- (A) Idiom
- (B) Proverb
- (C) Illusion
- (D) None of the above

97. Which of the following is **not** a synonym of the word 'satisfaction' ?

- (A) Contentment
- (B) Pride
- (C) Fulfilment
- (D) Bruise

98. I was pleasantly surprised by my exam results.

In the above sentence the underlined word 'pleasantly' is an/a :

- (A) Adverb
- (B) Adjective
- (C) Verb
- (D) Conjunction

99. Choose the correctly spelled word (according to British English) :

- (A) Misery
- (B) Mision
- (C) Fullfiling
- (D) Conven

100. 'Let us have no buts' he said firmly. 'You are coming.'

In the above sentence the word 'but' is a :

- (A) Noun
- (B) Conjunction
- (C) Preposition
- (D) Adverb

101. Select the correct one-word substitute for 'one who walks in one's sleep'.

- (A) Agnostic
- (B) Grouse
- (C) Neomatic
- (D) Somnambulist

102. Choose the most appropriate antonym for the word 'Latent'.

- (A) Hidden
- (B) Forbidding
- (C) Obvious
- (D) Artificial

103. The window looked out _____ the terrace.

Fill in the blank with most appropriate preposition.

- (A) on
- (B) in
- (C) onto
- (D) at

104. You get paid by _____ hour.

Fill in the blank with most appropriate article.

- (A) a
- (B) an
- (C) the
- (D) None of the above

105. Choose the exact meaning of the idiom- 'at one's wit's end.'

- (A) To be very frightened
- (B) To be aware of what is happening around you and ready to think and act quickly.
- (C) To be so worried by a problem that you do not know what to do next.
- (D) To minimize expenses.

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

(5) MATHEMATICS

(5) गणित

106. A dishonest shopkeeper buys an article for 5% less than its value and sells it for 5% more than its value. His gain percentage is :

- (A) 5%
- (B) 10.25%
- (C) 12.5%
- (D) 12%

107. The can contain a mixture of two liquids A and B in the ratio 7 : 5, when 9 liters of mixture are drawn off and can is filled with B the ratio of A and B becomes 7 : 9. How many liters of liquid A was contained by the can initially ?

- (A) 12
- (B) 15
- (C) 21
- (D) 30

108. In $\triangle ABC$, if $\angle A = 80^\circ$ and $AB = AC$, then

$$\frac{\angle A}{2} + \angle B + \angle C =$$

- (A) 80°
- (B) 140°
- (C) 90°
- (D) 180°

106. एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी कीमत से 5% कम कीमत में खरीदता है और बेचते समय 5% वास्तविक कीमत से अधिक में बेचता है। तो प्रतिशत लाभ होगा :

- (A) 5%
- (B) 10.25%
- (C) 12.5%
- (D) 12%

107. एक केन में दो तरल पदार्थों A और B का मिश्रण 7 : 5 के अनुपात में है। जब मिश्रण से 9 लिटर मिश्रण निकालकर B में मिलाया जाता है तो A और B का अनुपात 7 : 9 हो जाता है। तो प्रारंभ में केन में तरल पदार्थ A की मात्रा कितनी थी ?

- (A) 12
- (B) 15
- (C) 21
- (D) 30


108. $\triangle ABC$ में, यदि $\angle A = 80^\circ$ तथा $AB = AC$,

$$\text{तब } \frac{\angle A}{2} + \angle B + \angle C =$$

- (A) 80°
- (B) 140°
- (C) 90°
- (D) 180°


SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

109. An empty cylindrical container of radius 7 m and height 10 m is covered by a conical cap of radius 10.5 m and height 9 m. The volume of the air trapped inside is :



- (A) 1039.5 m^3
 (B) 2117.5 m^3
 (C) 577.5 m^3
 (D) 2579.5 m^3

109. एक खाली बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 7 मी. तथा ऊँचाई 10 मी. है एक शंकवाकार टोपी जिसकी त्रिज्या 10.5 मी. तथा ऊँचाई 9 मी. है से ढका है, तो अंदर फंसी हवा का आयतन है :



- (A) 1039.5 m^3
 (B) 2117.5 m^3
 (C) 577.5 m^3
 (D) 2579.5 m^3

110. One fourth of a certain journey is covered at the rate of 25 km/hr, one-third at the rate of 30 km/hr and the rest at 50 km/hr. The average speed for the whole journey is :

- (A) $600/53 \text{ km/hr}$
 (B) $1200/53 \text{ km/hr}$
 (C) $1800/53 \text{ km/hr}$
 (D) $1600/53 \text{ km/hr}$

110. एक निश्चित यात्रा का एक चौथाई 25 किमी/घंटे की दर से पूर्ण करते हैं, एक-तिहाई 30 किमी/घंटे की दर से तथा शेष 50 किमी/घंटे की दर से, तो संपूर्ण यात्रा की औसत रफ्तार है :

- (A) $600/53 \text{ किमी/घंटा}$
 (B) $1200/53 \text{ किमी/घंटा}$
 (C) $1800/53 \text{ किमी/घंटा}$
 (D) $1600/53 \text{ किमी/घंटा}$

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

111. Abhijeet purchased a cow for ₹ 1250 and sold it for ₹ 1100. Then his loss percent is :

- (A) 11%
- (B) 10%
- (C) 12.5%
- (D) 12%

112. A can finish a work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C starts the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A in :

- (A) 7 days
- (B) 8 days
- (C) 10 days
- (D) 15 days

113. If the area of three adjacent faces are P, Q and R respectively the volume of solid will be :

- (A) PQR
- (B) $P^2Q^2R^2$
- (C) $\sqrt{PQ+QR+RP}$
- (D) $\sqrt{PQR}$

111. अभिजीत ने एक गाय ₹ 1250 में खरीदकर ₹ 1100 में बेच दी। तब उसका हानि प्रतिशत है :

- (A) 11%
- (B) 10%
- (C) 12.5%
- (D) 12%

112. A किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, B 9 दिन में तथा C 12 दिन में। B और C कार्य शुरू कर 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते हैं, शेष कार्य A के द्वारा कितने दिन में किया जायेगा ?


- (A) 7 दिन
- (B) 8 दिन
- (C) 10 दिन
- (D) 15 दिन

113. यदि एक आयताकार ठोस के तीन संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः P, Q और R हैं तो उस आयताकार ठोस का आयतन होगा :

- (A) PQR
- (B) $P^2Q^2R^2$
- (C) $\sqrt{PQ+QR+RP}$
- (D) $\sqrt{PQR}$


SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

114. A circle is circumscribed around a square ABCD. The area of one of the four shaded portion is equal to $\frac{2}{7}$. The radius of the circle is :



- (A) 1
(B) 2
(C) $\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{2}$

114. एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। चार में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल $\frac{2}{7}$ है, तो वृत्त की त्रिज्या है :



- (A) 1
(B) 2
(C) $\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{2}$

115. A part of ₹ 38,800 is lent out at 6% per six months. The rest of the amount is lent out at 5% per annum after one year. The ratio of interest after 3 years from the time when first amount was lent out is 5 : 4. Then the second part that was lent out at 5% is :

- (A) ₹ 26,600
(B) ₹ 28,800
(C) ₹ 27,500
(D) ₹ 28,000

115. ₹ 38,800 का एक भाग 6% छः माही की दर से उधार दिया गया। एक साल बाद बची राशि को 5% वार्षिक की दर से उधार दिया गया। प्रथम राशि के उधार दिये जाने के तीन वर्ष पश्चात् दोनों राशियों के ब्याज का अनुपात 5 : 4 है। तो 5% उधार दी गई दूसरी राशि है :

- (A) ₹ 26,600
(B) ₹ 28,800
(C) ₹ 27,500
(D) ₹ 28,000

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

(6) GENERAL KNOWLEDGE

(6) सामान्य ज्ञान

116. Who has distinguished among satisfaction, pain and pleasure to reach wantless state ?
(A) Marshall
(B) J.K. Mehta
(C) Paul Samuelson
(D) None of these
117. Who of the following was the Defence Minister in the Interim Government under Jawaharlal Nehru during 1946-47 ?
(A) Vallabh Bhai Patel
(B) Sardar Baldev Singh
(C) Dr. John Mathai
(D) Liyaqat Ali Khan
118. In which bill the President can refuse to sign ?
(i) Government Bill
(ii) Finance Bill
(iii) Constitution Amendment Bill
(iv) Money Bill
(A) (i)
(B) (i) (ii)
(C) (i) (ii) (iii)
(D) (i) (ii) (iii) (iv)
119. Mirage is an incident cause by :
(A) Reflection
(B) Refraction
(C) Total Internal Reflection
(D) Diffraction
116. किसने 'आवश्यकता-विहीनता की स्थिति' को पहुँचने के लिए 'संतुष्टि', 'पीड़ा' एवं 'आनंद' में अन्तर किया है ?
(A) मार्शल
(B) जे.के. मेहता
(C) पॉल सेम्युल्सन
(D) इनमें से कोई नहीं
117. 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षामंत्री निम्नलिखित में से कौन थे ?
(A) वल्लभ भाई पटेल
(B) सरदार बलदेव सिंह
(C) डॉ. जॉन मथाई
(D) लियाक़त अली ख़ाँ
118. किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है ?
(i) सरकारी विधेयक
(ii) वित्त विधेयक
(iii) संविधान संशोधन विधेयक
(iv) धन विधेयक
(A) (i)
(B) (i) (ii)
(C) (i) (ii) (iii)
(D) (i) (ii) (iii) (iv)
119. मृग मरीचिका एक घटना है जिसका कारण है :
(A) परावर्तन
(B) अपवर्तन
(C) पूर्ण आन्तरिक परावर्तन
(D) विवर्तन

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

120. Which of the following pair (Fairs of this state and their dates) is correctly matched ?

- (A) Mahadev Ghat Fair - Kartik Purnima
- (B) Khallari Fair - Magh Purnima
- (C) Girodpuri Fair - Paush Purnima
- (D) Turturia Fair - Chaitra Purnima

121. Supposing President Proclaims Constitutional Crises in a State, in the meanwhile Lok Sabha dissolves, what will be happened ?

- (i) Proclamation of Constitutional Crises must be approved by the Parliament.
- (ii) As the Lok Sabha is dissolved, no Constitutional Crises can be continued.
- (iii) Rajya Sabha can approve the Proclamation of Constitutional Crises to continue.
- (iv) After new election of Lok Sabha within a period of two months Lok Sabha's approval is essential to continue the Proclamation.
- (v) After new election of Lok Sabha from the date of first meeting of Lok Sabha within Thirty days the approval of Lok Sabha is essential to continue the Proclamation.

- (A) (i) (ii) (iv)
- (B) (ii) (iv) (v)
- (C) (ii) (iii) (iv)
- (D) (i) (iii) (v)

120. निम्नलिखित में से कौनसी जोड़ी (इस राज्य के मेले एवं उनकी तिथियाँ) सुमेलित है ?

- (A) महादेव घाट मेला - कार्तिक पूर्णिमा
- (B) खल्लारी मेला - माघ पूर्णिमा
- (C) गिरौदपुरी मेला - पौष पूर्णिमा
- (D) तुरतुरिया मेला - चैत्र पूर्णिमा

121. मान लीजिए, राष्ट्रपति ने किसी राज्य में सांविधानिक संकट की घोषणा की, इसी बीच लोकसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा ?

- (i) सांविधानिक संकट की घोषणा पर संसद् की स्वीकृति आवश्यक है।
- (ii) चूंकि लोकसभा विघटित हो गई है, अतएव सांविधानिक संकट जारी नहीं रखा जा सकता।
- (iii) सांविधानिक संकट की घोषणा को जारी रखने के लिए राज्यसभा स्वीकृति दे सकती है।
- (iv) लोकसभा के नव निर्वाचन के बाद दो माह की अवधि के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है।
- (v) लोकसभा के नव निर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से तीस दिनों के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है।

- (A) (i) (ii) (iv)
- (B) (ii) (iv) (v)
- (C) (ii) (iii) (iv)
- (D) (i) (iii) (v)

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

122. Who was awarded Gyanpeeth Award in Bangla ?

- (A) Raghuveer Choudhari
- (B) Shankha Ghosh
- (C) Balchand Nemade
- (D) None of above

122. बँगला में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ ?

- (A) रघुवीर चौधरी
- (B) शंख घोष
- (C) बालचन्द नेमाडे
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

123. Which of the following is the biggest National Park of this state ?

- (A) Indravati
- (B) Kanger Valley
- (C) Guru Ghasidas
- (D) Kuturu

123. इस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है ?

- (A) इन्द्रावती
- (B) कांगेर घाटी
- (C) गुरु घासीदास
- (D) कुटुरु

124. Solar eclipse occur when :

- (A) the earth is between the sun and the moon
- (B) the moon is between the sun and the earth
- (C) the sun is between the earth and the moon
- (D) none of the above

124. सूर्य ग्रहण होता है जब :

- (A) पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है
- (B) चन्द्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाती है
- (C) सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

125. Which is essential element of human wants ?

- (A) Effective desire
- (B) Sufficient resources to fulfil it
- (C) Willingness to spend
- (D) All the above

125. मानवीय आवश्यकताओं के आवश्यक तत्व कौनसी है ?

- (A) प्रभावपूर्ण इच्छा
- (B) इसे पूर्ण करने के पर्याप्त संसाधन
- (C) व्यय करने की तत्परता
- (D) उपर्युक्त सभी

126. Stephen William Hawking was a :

- (A) English theoretical physicist and cosmologist
- (B) American cosmologist and theoretical physicist
- (C) German theoretical physicist and cosmologist
- (D) None of above

126. स्टीफन विलियम हॉकिंग थे :

- (A) अंग्रेज सैद्धान्तिक भौतिक शास्त्री तथा कॉस्मोलॉजिस्ट
- (B) अमेरिकन सैद्धान्तिक भौतिक शास्त्री तथा कॉस्मोलॉजिस्ट
- (C) जर्मन सैद्धान्तिक भौतिक शास्त्री तथा कॉस्मोलॉजिस्ट
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

127. No. of Islands in India is :

- (A) 247
- (B) 374
- (C) 274
- (D) 347

127. भारत में कितने द्वीप हैं ?

- (A) 247
- (B) 374
- (C) 274
- (D) 347

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

128. Which of the following pair (assassination of British officials and revolutionaries) is **not** correctly matched ?

- (A) Plague Commissioner Rand and Ayerst - Chapekar Brothers
- (B) Curzon Willie - Madanlal Dhingra
- (C) Mr. Saunders - Bhagat Singh, Rajguru and Azad
- (D) Mr. Steven, District Magistrate of Tippera - Surya Sen

129. What will be effect on total utility when marginal utility becomes zero ?

- (A) Total utility declines.
- (B) Total utility increases.
- (C) Total utility is maximum.
- (D) Total utility becomes negative.

128. निम्नलिखित में से कौनसी जोड़ी (ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या एवं क्रान्तिकारी) सुमेलित नहीं है ?

- (A) प्लेग कमिश्नर रैंड और ऐरस्ट - चापेकर बंधु
- (B) कर्जन वाइली - मदनलाल धिंगरा
- (C) मि. सांडर्स - भगत सिंह, राजगुरु और आजाद
- (D) टिप्पेरा के जिला मेजिस्ट्रेट मि. स्टीवन - सूर्य सेन

129. जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव होगा ?

- (A) कुल उपयोगिता घटने लगती है।
- (B) कुल उपयोगिता बढ़ने लगती है।
- (C) कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है।
- (D) कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है।

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

130. What is the formula to calculate the value of a vote of member of the Legislative Assembly in the context of the election of President ?

- (A) $\frac{\text{Population of the State}}{\text{The total no. of members of Legislative Assembly}}$
- (B) $\frac{\text{Population of the State}}{\text{The total no. of elected members of Legislative Assembly}}$
- (C) $\frac{\text{Population of the State}}{\text{The total no. of elected members of Legislative Assembly}} \div 1000$
- (D) $\frac{\text{Population of the State}}{\text{The total no. of elected members of Legislative Assembly}} \times 1000$

130. राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य की गणना करने का सूत्र क्या है ?

- (A) $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या}}$
- (B) $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$
- (C) $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \div 1000$
- (D) $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \times 1000$

131. Who of the following litterateur of this state was the author of 'Khoob Tamasha' ?

- (A) Baldev Prasad Mishra
- (B) Gopal Mishra
- (C) Makhan Mishra
- (D) Babu Rewa Ram

131. 'खूब तमाशा' के लेखक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौनसे साहित्यकार थे ?

- (A) बलदेव प्रसाद मिश्र
- (B) गोपाल मिश्र
- (C) माखन मिश्र
- (D) बाबू रेवा राम

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

132. Which of the following pair (session of Indian National Congress and its President) is correctly matched ?

- (A) 1938 Haripura - Jawaharlal Nehru
- (B) 1940 Ramgarh - Dr. Rajendra Prasad
- (C) 1946 Meerut - J.B. Kriplani
- (D) 1947 Delhi - Abul Kalam Azad

133. 1 gm fat release _____ energy.

- (A) 5 k. Cal
- (B) 7 k. Cal
- (C) 10 k. Cal
- (D) 9 k. Cal

134. Who had defined, economics as science of scarcity ?

- (A) Adam Smith
- (B) Marshall
- (C) Robbins
- (D) J.K. Mehta

132. निम्नलिखित में से कौनसी जोड़ी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष) सुमेलित है ?

- (A) 1938 हरिपुरा - जवाहरलाल नेहरू
- (B) 1940 रामगढ़ - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- (C) 1946 मेरठ - जे.बी. कृपलानी
- (D) 1947 दिल्ली - अबुल कलाम आजाद

133. एक ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पायी जाती है ?

- (A) 5 k. Cal
- (B) 7 k. Cal
- (C) 10 k. Cal
- (D) 9 k. Cal

134. अर्थशास्त्र को "सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान" किसने परिभाषित किया था ?

- (A) एडम स्मिथ
- (B) मार्शल
- (C) रॉबिन्स
- (D) जे.के. मेहता

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

135. Who founded 'Dudhadhari Math' in the capital of this state ?

- (A) Laxmi Narayan Das
- (B) Ramdas
- (C) Balbhadra Das
- (D) Dharmdas

135. इस राज्य की राजधानी में "दुधाधारी मठ" की स्थापना किसने की ?

- (A) लक्ष्मी नारायण दास
- (B) रामदास
- (C) बलभद्र दास
- (D) धर्मदास

136. For which of the following Gandhiji admitted that it was his 'mistake of Himalayan magnitude' ?

- (A) Satyagraha against Rowlatt Act
- (B) Khilafat Movement
- (C) Non-cooperation Movement
- (D) Quit India Movement

136. निम्नलिखित में से किसके लिए गांधीजी ने स्वीकार किया था कि यह उनकी 'हिमालय के आकार की गलती' थी ?

- (A) रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह
- (B) खिलाफत आंदोलन
- (C) असहयोग आंदोलन
- (D) भारत छोड़ो आंदोलन

137. Kaktiya dynasty had ruled in this area of this state :

- (A) Sarguja
- (B) Chhuikhadan
- (C) Bastar
- (D) Jashpur

137. इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था :

- (A) सरगुजा
- (B) छुईखदान
- (C) बस्तर
- (D) जशपुर

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

138. Island of Arabian Sea is :

- (A) Aliabet
- (B) Shree Harikota
- (C) Andaman
- (D) Nicobar

138. अरब सागर में स्थित द्वीप है :

- (A) अलियाबेट
- (B) श्रीहरिकोटा
- (C) अंडमान
- (D) निकोबार

139. What is not correct ?

- (i) The tenure of Legislative Assembly is five years.
- (ii) The tenure of the members of Legislative Assembly is five years.
- (iii) The tenure of the Legislative Assembly is counted from the date of declaration of election result.
- (iv) The tenure of the Legislative Assembly is counted from the date of first meeting.
- (v) In a by-election a member is elected for five years.
- (vi) In emergency the tenure can be extended by Legislative Assembly.
- (vii) In emergency the tenure can be extended by Parliament.

- (A) (i) (iii) (iv) (vii)
- (B) (ii) (iv) (v) (vii)
- (C) (ii) (iii) (v) (vi)
- (D) (i) (iv) (v) (vi)

139. क्या सही नहीं है ?

- (i) विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- (ii) विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।
- (iii) विधानसभा के कार्यकाल की गणना चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि से होती है।
- (iv) विधानसभा के कार्यकाल की गणना प्रथम सम्मिलन की तिथि से की जाती है।
- (v) उप-चुनाव में सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है।
- (vi) आपात्काल में विधानसभा के द्वारा कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है।
- (vii) आपात्काल में संसद् के द्वारा कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है।

- (A) (i) (iii) (iv) (vii)
- (B) (ii) (iv) (v) (vii)
- (C) (ii) (iii) (v) (vi)
- (D) (i) (iv) (v) (vi)

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

140. Area of India is :

- (A) 32,87,663 km²
- (B) 32,87,326 km²
- (C) 32,87,623 km²
- (D) 32,87,263 km²

140. भारत का क्षेत्रफल है :

- (A) 32,87,663 वर्ग किलोमीटर
- (B) 32,87,326 वर्ग किलोमीटर
- (C) 32,87,623 वर्ग किलोमीटर
- (D) 32,87,263 वर्ग किलोमीटर

141. Origin of Sutlej River is :

- (A) Dhauladhar Range
- (B) Pirpanjal Range
- (C) Rakshastal
- (D) Karakoram

141. सतलज नदी का उद्गम स्थल है :

- (A) धौलाधर श्रेणी
- (B) पीरपंजाल श्रेणी
- (C) राक्षसताल
- (D) काराकोरम

142. Ganga of South India is :

- (A) Kaveri
- (B) Krishna
- (C) Pennar
- (D) Narmada

142. दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है :

- (A) कावेरी
- (B) कृष्णा
- (C) पेन्नार
- (D) नर्मदा

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

143. Which of the following pair (Central Public Sector industries in this state and locations) is not correctly matched ?

- (A) Super Thermal Power Station - Korba
- (B) South Eastern Coalfields Ltd. - Bilaspur
- (C) Cement Corporation of India - Mandhar
- (D) South Eastern Railway Wagon Workshop - Durg

143. निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी (इस राज्य में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग एवं उनके स्थान) सुमेलित नहीं है ?

- (A) सुपर थर्मल पावर स्टेशन - कोरबा
- (B) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड - बिलासपुर
- (C) सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - मांडर
- (D) साऊथ ईस्टर्न रेलवे वॉगन वर्कशॉप - दुर्ग

144. Match the following rivers of this state with their tributaries :

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) Mahanadi | (i) Kharang |
| (b) Shivenath | (ii) Kotari |
| (c) Arpa | (iii) Peri |
| (d) Indravati | (iv) Maniyari |
- (A) (a) - (iii), (b) - (iv), (c) - (i), (d) - (ii)
 - (B) (a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (i)
 - (C) (a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (iv)
 - (D) (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (ii), (d) - (iii)

144. इस राज्य की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ सुमेलित कीजिए :

- | | |
|----------------|--------------|
| (a) महानदी | (i) खारंग |
| (b) शिवनाथ | (ii) कोटरी |
| (c) अरपा | (iii) पैरी |
| (d) इन्द्रावती | (iv) मनियारी |
- (A) (a) - (iii), (b) - (iv), (c) - (i), (d) - (ii)
 - (B) (a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (i)
 - (C) (a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (iv)
 - (D) (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (ii), (d) - (iii)

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

145. Which of the following is **not** a crypto currency ?

(A) Ethereum

(B) Bitcoin

(C) Ripple

(D) Litecoin

145. निम्न में से कौनसी क्रिप्टो मुद्रा नहीं है ?

(A) इथेरियम

(B) बिटकॉइन

(C) रिपल

(D) लाइटकॉइन

146. In the recent election who is elected Chief Minister of Nagaland ?

(A) Biplab Kumar Deb

(B) Conrad Sangma

(C) Neiphiu Rio

(D) None of above

146. हाल ही के चुनाव में नागालैण्ड का मुख्य मंत्री कौन चुना गया ?

(A) बिप्लब कुमार देब

(B) कॉनराड संगमा

(C) नेफ्यू रियो

(D) उपरोक्त में कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

147. Who makes rule about the procedure of joint session of Parliament ?

- (A) President
- (B) Parliament
- (C) President with the consultation of Speaker of Lok Sabha
- (D) President with the consultation of Speaker of Lok Sabha and the Chairman of Rajya Sabha

147. संसद् के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम कौन बनाता है ?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) संसद्
- (C) लोकसभा के स्पीकर के परामर्श पर राष्ट्रपति
- (D) लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति

148. Match the following socio-religious movements with their founders :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (a) Dharma Sabha | (i) Shivnarayan Agnihotri |
| (b) Paramhansa Mandali | (ii) Tulsi Ram |
| (c) Radha Swami Satsang | (iii) Radhakant Dev |
| (d) Dev Samaj | (iv) Dadoba Pandurang |

- (A) (a) - (ii), (b) - (iv), (c) - (iii), (d) - (i)
- (B) (a) - (iii), (b) - (iv), (c) - (ii), (d) - (i)
- (C) (a) - (iv), (b) - (ii), (c) - (i), (d) - (iii)
- (D) (a) - (i), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (ii)

148. निम्नलिखित समाज-धर्म आंदोलनों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| (a) धर्म सभा | (i) शिवनारायण अग्निहोत्री |
| (b) परमहंस मंडली | (ii) तुलसी राम |
| (c) राधास्वामी सत्संग | (iii) राधाकान्त देव |
| (d) देव समाज | (iv) दादोबा पांडुरंग |

- (A) (a) - (ii), (b) - (iv), (c) - (iii), (d) - (i)
- (B) (a) - (iii), (b) - (iv), (c) - (ii), (d) - (i)
- (C) (a) - (iv), (b) - (ii), (c) - (i), (d) - (iii)
- (D) (a) - (i), (b) - (iii), (c) - (iv), (d) - (ii)

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

149. Xi Jing Ping is appointed President of China for :

- (A) the next term
- (B) for the next five year
- (C) for no limit to the tenure
- (D) None of above

149. शी जिंग पिंग चीन के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए :

- (A) अगले कार्यकाल के लिए
- (B) अगले पाँच वर्ष के लिए
- (C) कार्यकाल की कोई सीमा नहीं
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

150. Human milk contains sugar per 100 ml :

- (A) 7 gm
- (B) 5 gm
- (C) 4 gm
- (D) 9 gm

150. मानव के दूध में प्रत्येक 100 ml में शक्कर की कितनी मात्रा होती है ?

- (A) 7 gm
- (B) 5 gm
- (C) 4 gm
- (D) 9 gm

- o o o -

- o o o -

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

SET - A

उत्तर अंकित करने का समय : 3.00 घंटे

Time for marking answers : 3.00 Hours

अधिकतम अंक : 150

Maximum Marks : 150

नोट :

1. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग होंगे :

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| (1) लेखा ज्ञान संबंधी | - | 1-75 |
| (2) कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी | - | 76-85 |
| (3) हिन्दी भाषा | - | 86-95 |
| (4) अंग्रेजी भाषा | - | 96-105 |
| (5) गणित | - | 106-115 |
| (6) सामान्य ज्ञान | - | 116-150 |

प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कुल 150 प्रश्न करने अनिवार्य है।

2. प्रश्नों के उत्तर, दी गई OMR उत्तर-शीट (आंसर-शीट) पर अंकित कीजिए।

3. गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काटे जायेंगे।

4. किसी भी तरह के कैलकुलेटर या लॉग टेबल एवं मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।

5. OMR उत्तर-शीट (आंसर-शीट) का प्रयोग करते समय ऐसी कोई असावधानी न करें/बरतें जिससे यह फट जाये या उसमें मोड़ या सिलवट आदि पड़ जाये जिसके फलस्वरूप वह खराब हो जाये।

Note :

1. This Question Booklet consists of Parts namely :

- | | | |
|--------------------------------|---|---------|
| (1) Knowledge Relating Account | - | 1-75 |
| (2) Computer Related Knowledge | - | 76-85 |
| (3) Hindi Language | - | 86-95 |
| (4) English Language | - | 96-105 |
| (5) Mathematics | - | 106-115 |
| (6) General Knowledge | - | 116-150 |

Each question carries 1 mark. All 150 questions are compulsory.

2. Indicate your answers on the OMR Answer-Sheet provided.

3. 1/4 mark will be deducted for each wrong Answer.

4. Use of any type of calculator or log table and mobile phone is prohibited.

5. While using OMR Answer-Sheet care should be taken so that the Answer-Sheet does not get torn or spoiled due to folds and wrinkles.